

## MAINS- 2010

**Q.1**  $M$  द्रव्यमान और  $r$  त्रिज्या का एक पतला छल्ला (वलय) अपनी अक्ष के परितः स्थिर कोणीय वेग  $\omega$  से घूर्णन कर रहा है। इस छल्ले के व्यास के दो विपरीत सिरों पर समान (बराबर) द्रव्यमान  $m$  की दो पिंडों को हल्के से संलग्न कर (जोड़ दिया) गया है। अब छल्ले का कोणीय वेग हो जायेगा -

(1)  $\frac{2M\omega}{M+2m}$

(2)  $\frac{(M+2m)\omega}{M}$

(3)  $\frac{M\omega}{M+2m}$

(4)  $\frac{(M+2m)\omega}{2m}$

**Q.2**  $R$  त्रिज्या और  $9M$  द्रव्यमान की एक डिस्क से  $R/3$  त्रिज्या एवम्  $M$  द्रव्यमान की एक छोटी डिस्क संकेन्द्री रूप से काट कर निकाल ली गई है। शेष बचे भाग का जड़त्व आधूर्ण, उसके तल के लम्बवत् और उसके केन्द्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः होगा -

(1)  $MR^2$

(2)  $4MR^2$

(3)  $\frac{4}{9}MR^2$

(4)  $\frac{40}{9}MR^2$

**Q.3** विराम अवस्था में स्थित  $M$  द्रव्यमान का एक कण, एकसमान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। यदि  $T$  समय के पश्चात् उस कण की चाल  $V$  हो जाती है तो, कण को दी गई शक्ति होगी -

(1)  $\frac{1}{2} \frac{MV^2}{T^2}$

(2)  $\frac{MV^2}{T^2}$

(3)  $\frac{1}{2} \frac{MV^2}{T}$

(4)  $\frac{MV^2}{T}$

**Q.4** समान द्रव्यमान और समान बाह्य त्रिज्या के दो बेलनों में से एक ठोस है और दूसरा खोखला है। दोनों को एक ही समय, एक ही ऊँचाई से, किसी आनत समतल पर लुढ़काया गया है। दोनों बगैर फिसले लोटन करते हैं, इन दोनों बगैर फिसले लोटन करते हैं, इन दोनों में से कौन तली पर पहुँचेगा -

(1) दोनों एक साथ





(2) खोखला सिलिन्डर

(3) ठोस सिलिन्डर

(4) दोनों एक साथ, केवल तब जब आनत समतल

 $45^\circ$  पर झुका हो

**Q.5** यदि पथ्वी को  $R$  त्रिज्या और एकसमान घनत्व का एक गोला माना जाय तो, पथ्वी के केन्द्र से दूरी 'r' पर ' $g$ ' की निर्भरता के लिये निम्नलिखित चित्रों में से ठीक चित्र (आलेख) है -



(1) a      (2) b      (3) c      (4) d

**Q.6**  $m$  द्रव्यमान का एक उपग्रह, किसी  $M$  द्रव्यमान के ग्रह की परिक्रमा,  $R_1$  त्रिज्या की वतीय कक्षा में कर रहा है। इसकी कक्षा की त्रिज्या को  $R_2$  करने के लिये ( $R_2 > R_1$ ) उपग्रह को दी जाने वाली अतिरिक्त गतिज ऊर्जा होगी -

(1)  $GmM \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(2)  $2GmM \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(3)  $\frac{1}{2} GmM \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(4)  $GmM \left( \frac{1}{R_1^2} - \frac{1}{R_2^2} \right)$



**Q.15** यदि किसी आदर्श गैस का अणुभार  $M$  है।  $C_p$  तथा  $C_v$  इसकी विशिष्ट ऊष्मा (प्रति इकाई द्रव्यमान) हैं। तो-

- (1)  $C_p - C_v = R$       (2)  $C_p - C_v = R / M$   
 (3)  $C_p - C_v = MR$       (4)  $C_p - C_v = R / M^2$

$R$  यहाँ मोलीय गैस (अणु गैस) नियतांक है


**Q.16** किसी प्रतिचुम्बकीय परमाणु का चुम्बकीय आघूर्ण होता है -

- (1) 1  
 (2) शून्य और एक के बीच  
 (3) शून्य  
 (4) एक से बहुत अधिक

**Q.17** विद्युतवाही एक लूप (पाश) में दो एक समान अर्ध वत्ताकार भाग हैं। प्रत्येक की त्रिज्या  $R$  है। एक x-y समतल में और दूसरा x-z समतल में स्थित है। यदि लूप (पाश) में विद्युत धारा  $i$  हो तो, उनके उभयनिष्ठ केन्द्र पर दोनों अर्धवत्ताकार भागों के द्वारा उत्पन्न परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र है -

- (1)  $\frac{\mu_0 i}{2R}$       (2)  $\frac{\mu_0 i}{4R}$   
 (3)  $\frac{\mu_0 i}{\sqrt{2}R}$       (4)  $\frac{\mu_0 i}{2\sqrt{2}R}$

**Q.18** दो सर्वसम (समरूप) छड़ चुम्बकों को इस प्रकार स्थिर किया गया है कि उनके केन्द्र  $d$  दूरी पर हैं। चित्र में दिखाये गये अनुसार दोनों चुम्बकों के बीच के खाली स्थान में मध्यबिन्दु  $O$  से  $D$  दूरी पर बिन्दु  $P$  पर एक स्थिर आवेश  $Q$  रखा है।



Q आवेश पर बल -

- (1) OP के अनुदिश होगा  
 (2) PQ के अनुदिश होगा  
 (3) कागज के समतल पर लम्ब के अनुदिश होगा  
 (4) शून्य

**Q.19** एक परिनालिका में 2000 फेरे पास-पास लपेटे गये हैं। इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल  $1.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$  है और इसमें 2.0 A की विद्युतधारा प्रवाहित हो रही है। इसे लम्बाई के लम्बवत् अपने केन्द्र से इस प्रकार लटकाया गया है कि यह किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता  $5 \times 10^{-2}$  टेरला है और यह परिनालिका के अक्ष से  $30^\circ$  का कोण बनाता है। परिनालिका पर बल आघूर्ण होगा -

- (1)  $1.5 \times 10^{-3} \text{ N.m}$       (2)  $1.5 \times 10^{-2} \text{ N.m}$   
 (3)  $3 \times 10^{-2} \text{ N.m}$       (4)  $3 \times 10^{-3} \text{ N.m}$

**Q.20** C धारिता के एक संधारित्र को  $V_1$  विभवान्तर तक आवेशित किया गया है। फिर इसकी प्लेटों को एक L प्रेरकत्व के एक आदर्श प्रेरक से जोड़ दिया गया है। जब संधारित्र के सिरों के बीच विभवान्तर कम होकर  $V_2$  हो जाय तो प्रेरक से बहने वाली विद्युत धारा होगी -

- (1)  $\frac{C(V_1^2 - V_2^2)}{L}$   
 (2)  $\frac{C(V_1^2 + V_2^2)}{L}$   
 (3)  $\left( \frac{C(V_1^2 - V_2^2)}{L} \right)^{1/2}$   
 (4)  $\left( \frac{C(V_1 - V_2)^2}{L} \right)^{1/2}$

**Q.21** दो समान्तर धातु की प्लेटें एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर रखी हैं। इन प्लेटों पर  $+Q$  तथा  $-Q$  आवेश है। यदि प्लेटों को केरोसिन के टैंक में डुबो दिया जाय तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र -

- (1) बढ़ जायेगा      (2) घट जायेगा  
 (3) समान रहेगा      (4) शून्य हो जायेगा

**Q.22** R त्रिज्या के, किसी आवेशित चालक गोलीय कोश (खोल) के केन्द्र से  $\frac{3R}{2}$  दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है।

इसके केन्द्र से  $\frac{R}{2}$  दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा -

- (1) E      (2)  $\frac{E}{2}$       (3)  $\frac{E}{3}$       (4) शून्य

- Q.23** किसी ताप-वैद्युत युग्म का वोल्ट में ताप-विद्युत वाहक बल  $E$ ,  $^{\circ}\text{C}$  में दोनों संधियों के बीच तापान्तर  $\theta$  पर इस प्रकार निर्भर करता है।

$$E = 30\theta - \frac{\theta^2}{15}$$

इस ताप-वैद्युत युगम का उदासीन ताप होगा -



- Q.24**  $10^{-2}$  kg द्रव्यमान के किसी कण पर  $5 \times 10^{-8}$  N का आवेश है। इस कण को विद्युत क्षेत्र  $\vec{E}$  और चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  की उपस्थिति में  $10^5$  ms $^{-1}$  का क्षैतिज वेग दिया जाता है। कण के क्षैतिज दिशा में पूर्ववत गति करते रहने के लिए यह आवश्यक है कि

- (a)  $\vec{B}$  वेग की दिशा के लम्बवत् और  $\vec{E}$  वेग की दिशा के अनुदिश हो ।

(b)  $\vec{B}$  तथा  $\vec{E}$  दोनों आपस में और वेग की दिशा के लम्बवत् हो

(c)  $\vec{B}$  और  $\vec{E}$  दोनों आपस में और वेग की दिशा के लम्बवत् हों

(d)  $\vec{B}$  वेग की दिशा को अनुदिश और  $\vec{E}$  उसके लम्बवत् हों ।

निम्नलिखित प्रकथनों के युगमों में से कौन सा संभव है ?

- (1) (c) तथा (d)  
(2) (b) तथा (c)  
(3) (b) तथा (d)  
(4) (a) तथा (c)

- Q.25** जब I तीव्रता को एकवर्णी विकिरण, किसी धातु की सतह पर टकराते हैं तो, फोटॉन की संख्या और उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः N और T हैं। यदि विकिरणों की तीव्रता  $2I$  हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः होंगे -



- Q.26** हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था ( $n = 3$ ) से निम्नतम (आद्य) अवस्था ( $n = 1$ ) में छलांग लगाते हैं तथा इससे उत्सर्जित फोटॉन एक प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर पड़ते हैं। यदि इसे पदार्थ पर पड़ते हैं। यदि इस पदार्थ का कार्य फलन  $5.1 \text{ eV}$  हो तो निरोधी विभव होगा :  $n$  वीं स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा  $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$  -



- Q.27** ड्यूटिरियम और हीलियम के नाभिकों की प्रति न्यूक्लिआन बंधन ऊर्जा क्रमशः 1.1 MeV तथा 7.0 MeV है। जब दो ड्यूटिरियम नाभिकों के संलयन से हीलियम नाभिक बनता है तो, इस संलयन में मुक्त ऊर्जा है -



- Q.29** ट्रांजिस्टर क्रिया के लिये—

  - (a) आधार, उत्सर्जन और संग्राहक क्षेत्रों का समान आकार और समान मादन सान्द्रता होनी चाहिये
  - (b) आधार क्षेत्र बहुत पतला होना और कम मादित होना चाहिए
  - (c) उत्सर्जक—आधार संधि अग्र बायसित और आधार संग्राहक संधि पश्च बायसित होनी चाहिये
  - (d) उत्सर्जक—आधार संधि और आधार—संग्राहक संधि दोनों ही अग्र बायसित होनी चाहिये निम्नलिखित कथनों के युगमों में से कौन सा ठीक है ?
  - (1) (a), (b)
  - (2) (b), (c)
  - (3) (c), (d)
  - (4) (d), (a)

- Q.30** यित्र में एक लॉजिक गेट परिपथ दिखाया गया है जिसमें A तथा B दो निवेश और Y एक निर्गत है। A, B और Y का वोल्टता तरंग रूप नीचे दिया गया है-



यह लॉजिक गेट हैं—





- Q.32** 0.66 kg का एक बाल 100 m/s की गति से चल रहा है। इससे सम्बन्धित तरंगदैर्घ्य होगी (h =  $6.6 \times 10^{-34}$  Js)-

  - $6.6 \times 10^{-34}$  m
  - $1.0 \times 10^{-35}$  m
  - $1.0 \times 10^{-32}$  m
  - $6.6 \times 10^{-32}$  m

- Q.33** एक आदर्श गैस का तीन मोल निर्वात में स्वतः प्रसारित हुआ। किया हुआ कार्य होगा -

  - (1) 3 जूल
  - (2) 9 जूल
  - (3) शन्य
  - (4) अनन्त

- Q.34** निम्न दो अभिक्रियाएँ ज्ञात हैं

$$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightarrow 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g}); \Delta H = -26.8 \text{ kJ}$$

$$\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}); \Delta H = -16.5 \text{ kJ}$$

निम्न अभिक्रिया के लिए

$$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightarrow 2\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) : \Delta H \text{ का मान है} -$$

(1) -43.3 kJ	(2) -10.3 kJ
(3) +6.2 kJ	(4) +10.3 kJ

- Q.35** अभिक्रिया  

$$2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 3C(g) + D(g)$$
 A तथा B दोनों के ही 1.00 M प्रारम्भिक सान्दर्भ से आरम्भ की जाती है। जब साम्य पहुँच जाता है तब D की सान्दर्भता नापी जाने पर 0.25 M पायी जाती है। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के मान को निम्न व्यंजक से दिया जायेगा -

  - (1)  $[(0.75)^3 (0.25)] \div [(0.50)^2 (0.75)]$
  - (2)  $[(0.75)^3 (0.25)] \div [(0.50)^2 (0.25)]$
  - (3)  $[(0.75)^3 (0.25)] \div [(0.75)^2 (0.25)]$
  - (4)  $[(0.75)^3 (0.25)] \div [(1.00)^2 (1.00)]$



- Q.37** निम्न में से कौन सा व्यंजक  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  की अनन्त तनुता पर तुल्यांकी चालकता को सही रूप से अभिव्यक्त करता है ?  $\Lambda_{\text{Al}^{3+}}^{\circ}$  तथा  $\Lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^{\circ}$  अनन्त तनुता पर तत्सम्बंधी आयनों की तुल्यांकी चालकताएँ हैं

  - (1)  $\Lambda_{\text{Al}^{3+}}^{\circ} + \Lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^{\circ}$
  - (2)  $(\Lambda_{\text{Al}^{3+}}^{\circ} + \Lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^{\circ}) \times 6$
  - (3)  $\frac{1}{3} \Lambda_{\text{Al}^{3+}}^{\circ} + \frac{1}{2} \Lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^{\circ}$
  - (4)  $2\Lambda_{\text{Al}^{3+}}^{\circ} + 3\Lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^{\circ}$

- Q.38**  $\text{P}_4\text{O}_{10}$  में कितने सेतुबंधक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं ?

- Q.39** निम्न में से किसमें धनायन तथा ऋणायन की

- Q.40** साइंजो का जनुपात्र उद्योग हाना ?  
 (1) CsF      (2) LiF      (3) NaF      (4) CsI  
 निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था  
 लैथ्येनोड्डों में सर्वाधिक पायी जाती है ?

- (1) 2            (2) 5            (3) 3            (4) 4  
**Q41** दो स्पीशीज  $\text{NO}_3^-$  तथा  $\text{H}_2\text{O}^+$  के कछ गणधर्म नीचे

- वर्णित हैं। इनमें से कौन सा (गुणधर्म) सही है ?

  - (1) समसंरचनात्मक एवं केन्द्रीय परमाणु का समान संकरण
  - (2) समसंरचनात्मक एवं केन्द्रीय परमाणु का भिन्न संकरण
  - (3) केन्द्रीय परमाणु का एक जैसा संकरण तथा उनकी अलग-अलग संरचनाएँ
  - (4) केन्द्रीय परमाणु का भिन्न-भिन्न संकरण तथा भिन्न संरचनाएँ

**Q.42** यौगिक A गरम करने पर एक रंगहीन गैस तथा एक अवशेष देता है जिसको (अवशेष को) पानी में घोलने पर B प्राप्त होता है। B के जलीय विलयन से  $\text{CO}_2$  की अधिक मात्रा बुलबुलाई जाने पर C बनता है जिसे ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ठोस C को धीरे-धीरे गरम करने पर A पुनः प्राप्त होता है, यौगिक A है -

- (1)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$       (2)  $\text{K}_2\text{CO}_3$   
(3)  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$       (4)  $\text{CaCO}_3$


**Q.43** Ca, Mg, P तथा Cl तत्वों में उनके परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है -

- (1) Cl < P < Mg < Ca      (2) P < Cl < Ca < Mg  
 (3) Ca < Mg < P < Cl      (4) Mg < Ca < Cl < P

**Q.44** निम्न संकुलों में से किससे समावयवता प्रदर्शित करने की आशा नहीं की जा सकती है ?

- (1)  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
  - (2)  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
  - (3)  $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$
  - (4)  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O}_2)]^{2+}$


**Q.45** निम्न योगिकों में से कौन सर्वाधिक शीघ्रता से निर्जलीकरण किया जा सकता है?



**Q.47** फ्रक्टोस टॉलेन अभिकारक को अपचयित करता है, जिसका कारण है -

- (1) इसमें प्राथमिक ऐल्कोहॉली ग्रुप का होना
  - (2) इसमें सेकेण्डरी ऐल्कोहॉली ग्रुप का होना
  - (3) फ्रक्टोस का इनॉलीकरण तत्पश्चात् क्षारक द्वारा  
एल्डहाइड में रूपान्तरण
  - (4) असमित कार्बनों का होना

**Q.48** एथिलीन ग्लाइकॉल के लिये निम्नलिखित में से कौन संरूपी सर्वाधिक स्थायी है ?



**Q.49** यौगिक  $\text{CH}_3\text{CH} = \text{CHC} \equiv \text{CH}$  का IUPAC नाम है-

- (1) पेन्ट - 3 - ईन - 1 - आईन  
(2) पेन्ट - 2 - ईन - 4 - आईन  
(3) पेन्ट - 1 - आईन - 3 - ईन  
(4) पेन्ट - 4 - आईन - 2 - ईन


**Q.50** जब ग्लीसरॉल को HI के आधिक्य में उपचारित किया जाता है तो यह देता है -

- (1) एलिल आयोडाइड
- (2) प्रोपीन
- (3) ग्लीसरॉल ट्राईआयोडाइड
- (4) 2-आयोडोप्रोपेन

**Q.51** निम्नलिखित स्पीशीज में कौन स्वभावतः इलेक्ट्रॉनस्नेही नहीं है ?

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (1) $\text{BH}_3$                   | (2) $\text{H}_3\overset{\oplus}{\text{O}}$ |
| (3) $\overset{\oplus}{\text{NO}}_2$ | (4) $\overset{\oplus}{\text{Cl}}$          |

**Q.52** निम्न अभिक्रिया में



उत्पाद 'X' है -

- (1)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$
- (2)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$
- (3)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$
- (4)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$

**Q.53** निम्नलिखित में से किस अणु में केन्द्रीय परमाणु  $\text{sp}^3$  संकरण में नहीं है ?

- (1)  $\text{SF}_4$
- (2)  $\text{BF}_4^-$
- (3)  $\text{NH}_4^+$
- (4)  $\text{CH}_4$

**Q.54** अभिक्रिया

$2\text{NO} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NOCl}$  की अभिक्रिया दर निम्न दर समीकरण द्वारा प्रस्तुत की जाती है

$$\text{दर} = k[\text{NO}]^2[\text{Cl}_2]$$

इसके दर स्थिरांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

- (1) NO के सान्द्रण को बढ़ाकर .
- (2)  $\text{Cl}_2$  के सान्द्रण को बढ़ाकर
- (3) ताप को बढ़ाकर
- (4) ऊपर के सभी प्रकार के करने से

**Q.55** सूची- I (समीकरणों) को सूची - II (प्रक्रम के प्रकार) से सुमेलित कीजिए और सही चुनाव कीजिए ।

सूची- I	सूची - II
समीकरण	प्रक्रम का प्रकार
(a) $K_p > Q$	(i) अस्वतः
(b) $\Delta G^\circ < RT \ln Q$	(ii) साम्य
(c) $K_p = Q$	(iii) स्वतः और ऊष्माशोषी
(d) $T > \frac{\Delta H}{\Delta S}$	(iv) स्वतः

विकल्प :

(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(ii)
(2)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(i)	(ii)	(iii)

**Q.56** सूची- I (पदार्थों) को सूची - II (प्रक्रमों) के साथ, जो उनके निर्माण में काम लाये जाते हैं, सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को चुनिये ।

सूची- I	सूची - II
पदार्थ	प्रक्रम
(a) सल्फ्यूरिक अम्ल	(i) हैबर का प्रक्रम
(b) स्टील (इस्पात)	(ii) बेसेमर प्रक्रम
(c) सोडियम हाइड्रोक्साइड	(iii) लीब्लांक प्रक्रम
(d) अमोनिया	(iv) सम्पर्क प्रक्रम

विकल्प :

(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)
(4)	(i)	(iv)	(ii)

**Q.57** सूची -I में दिये गये यौगिकों को सूची -II में दी गई उनकी विशिष्ट अभिक्रिया के साथ सुमेलित कीजिए।

### सूची - I

#### यौगिक

- (a)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
- (b)  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$
- (c)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$
- (d)  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$

### सूची - II

#### अभिक्रियाएँ

- (i) क्षारीय जल अपघटन
- (ii) KOH (एल्कोहॉल) और  $\text{CHCl}_3$  के साथ दुर्गंध पैदा होती है
- (iii) अमोनिकल  $\text{AgNO}_3$  के साथ सफेद अवक्षेप
- (iv) ल्यूकास अभिकारक के साथ 5 मिनट बाद धुंधलापन का होना

#### विकल्प :

- |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (iii) | (ii)  | (i)   |
| (2) | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (3) | (iv)  | (ii)  | (iii) |
| (4) | (ii)  | (i)   | (iv)  |

**Q.58** भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिये जाते हैं :

- (a) न्यूक्लीयर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग एक विमंदक (माडरेटर) के रूप में किया जाता है।
  - (b) भारी जल अपेक्षाकृत साधारण जल से अधिक संगुणित रहता है।
  - (c) साधारण जल की अपेक्षा भारी जल अधिक प्रभावी विलायक है।
- उपरोक्त कथनों में कौन सही है ?
- (1) (a), (b) तथा (c)
  - (2) (b) तथा (c)
  - (3) (a) तथा (c)
  - (4) (a) तथा (b)

**Q.59** विद्युतरासायनिक सेल के emf के लिए दिए गये निम्न सम्बन्धों पर विचार कीजिए :

- (a) सेल का  $\text{emf} = (\text{एनोड का उपचयन विभव}) - (\text{कैथोड का अपचयन विभव})$
  - (b) सेल का  $\text{emf} = (\text{एनोड का उपचयन विभव}) + (\text{कैथोड का अपचयन विभव})$
  - (c) सेल का  $\text{emf} = (\text{एनोड का अपचयन विभव}) + (\text{कैथोड का अपचयन विभव})$
  - (d) सेल का  $\text{emf} = (\text{एनोड का उपचयन विभव}) - (\text{कैथोड का उपचयन विभव})$
- उपरोक्त सम्बन्धों में से कौन से सही हैं ?

#### विकल्प

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (1) (a) तथा (b) | (2) (c) तथा (d) |
| (3) (b) तथा (d) | (4) (c) तथा (a) |

**Q.60** निम्नलिखित यौगिक दिये गये हैं :


- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$   | (b) $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ |
| (c) $\text{CH}_3-\overset{\text{CHOH}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ | (d) $\text{CH}_3\text{OH}$     |

इनमें से कौन आयोडिन विलयन और  $\text{NaOH}$  के साथ गर्म करने पर आयोडोफर्म देगा ?

#### विकल्प

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| (1) केवल (b)    | (2) (a), (b) तथा (c) |
| (3) (a) तथा (b) | (4) (a), (c) तथा (d) |


**Q.61** नीचे एक जीवाणुभौजी का चित्र दिया गया है। दिये गये विकल्पों में से किस एक में चारों भाग A, B, C तथा D ठीक दिये गये हैं –



#### Options

	A	B	C	D
(1)	आच्छद	कॉलर	शीर्ष	पुच्छ तंतु
(2)	शीर्ष	आच्छद	कॉलर	पुच्छ तंतु
(3)	कॉलर	पुच्छ तंतु	शीर्ष	आच्छद
(4)	पुच्छ तंतु	शीर्ष	आच्छद	कॉलर


**Q.62** चित्र A, B, C तथा D की जाँच करें। दिये गये विकल्पों में से किस एक में A, B, C तथा D चारों ठीक हैं ?



विकल्प :

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
(1)	इक्वीसीटम	जिंको	सिलेजिनेला	लाइकोपोडियम
(2)	सिलेजिनैला	इक्वीसीटम	साल्वीनीया	जिंको
(3)	फ्यूनेरिया	एडियन्टम	साल्वीनीया	रिक्सिया
(4)	कारा	मार्केशिया	फ्यूक्स	पाइनस

**Q.64** नीचे दिये गए चित्र में एक एन्जाईम द्वारा क्रियाधार का उत्पादन में परिवर्तित होना दर्शाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों (1-4) में से, किसमें अभिक्रिया के चार घटकों A, B, C तथा D को सही पहचाना गया है-



विकल्प

	A	B	C	D
(1)	संक्रमण अवस्था	विभव ऊर्जा	एँजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा	एँजाइम सहित संक्रियण ऊर्जा
(2)	विभव ऊर्जा	संक्रमण अवस्था	एँजाइम सहित संक्रियण ऊर्जा	एँजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा
(3)	एँजाइम सहित संक्रियण ऊर्जा	संक्रमण अवस्था	एँजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा	विभव ऊर्जा
(4)	विभव ऊर्जा	संक्रमण अवस्था	एँजाइम सहित संक्रियण ऊर्जा	एँजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा

**Q.65** कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तन्तुकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाये रखने में सहायक होता है, कहलाता है -

- (1) एंडोप्लाज्मी जालक
- (2) प्लाज्मोलेमा
- (3) कोशिका कंकाल
- (4) शायरलैक्टॉर्ड

Q.66

एन्टिराइनम के दो पौधों, (दोनों गुलाबी फूलों वालों) के बीच संकरण कराया गया।  $F_1$  पौधों में लाल गुलाबी तथा सफेद पुष्प 1 लाल, 2 गुलाबी तथा 1 सफेद पुष्प के अनुपात में बनते पाये गए। संकरण में उपयोग में लाए गए दो पौधों का जीनप्ररूप क्या रहा होगा? पुष्प के लाल रंग का निर्धारण  $RR$  जीन तथा सफेद रंग का निर्धारण  $rr$  जीन तथा सफेद रंग का निर्धारण  $rr$  जीन करते हैं-



**Q.67 lac** आपेरॉन में क्या-क्या होते हैं -

- (1) एक नियामक जीन तथा तीन संरचनात्मक जीन
  - (2) दो नियामक जीन तथा दो संरचनात्मक जीन
  - (3) तीन नियामक जीन तथा तीन संरचनात्मक जीन
  - (4) केवल चार नियामक जीन

**Q.68** वह संकरण जिसमें किसी जीव (जो प्रभावी लक्षण प्ररूप दर्शाता हो) का जीन प्ररूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ संकरण किया जाता हो, क्या कहलाता है -

- (1) प्रतीप संकरण                  (2) परीक्षार्थ संकरण  
(3) द्विसंकरण संकरण            (4) एकसंकरण संकरण

**Q.69** उच्च पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानान्तरण किसके द्वारा होता है -

- (1) सँचरण ऊतक (2) वाहिनीयाँ  
(3) चालनी तत्व (4) सहकोशिकाएँ


क्रान्ज शारीरिकी किसकी पतियों का एक लक्षण  
(1) गेहूँ (2) गन्ना

**Q.71** निम्नलिखित चार कथनों A, B, C तथा D पर विचार कीजिए । इनमें से कौन से दो कथन सही हैं यह बताने वाला सही विकल्प चुनिये -


କୁଥୁଜ

- (A) वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास में बड़े पश्च दल (पंखुड़ी) को स्टैन्डर्ड, दो पार्श्व विंग्स (पंख) तथा दो छोटे अग्र दलों को नौतल (कील) कहते हैं

(B) लिलयेसी का पुष्प सूत्र




- (C) मटर के पुष्प के पुँकेसर मौनएडल्फस  
(एकसंघी) होते हैं




$\oplus$  ♂ K<sub>(3)</sub> ♂

(2) % ♂ K<sub>(5)</sub> C<sub>1+2+(2)</sub> A<sub>(9)+1</sub> G<sub>1</sub>  
 (3) % ♂ K<sub>(5)</sub> C<sub>1+2+(2)</sub> A<sub>1+(9)</sub> G<sub>1</sub>  
 (4) % ♂ K<sub>(5)</sub> C<sub>1+(2)+2</sub> A<sub>(9)+1</sub> G<sub>1</sub>




- Q.76** नीचे दर्शाए गए पाठवे (दशामार्ग) का अध्ययन कीजिए-



निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तीनों A, B तथा C रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द दर्शाए गए हैं

	A	B	C
(1)	यौगिकीकरण	ट्रान्सएमीनेशन	पुनरुदभवन
(2)	यौगिकीकरण	डीकार्बोक्सिसलेशन	पुनरुदभवन
(3)	कार्बोक्सिसलेशन	डीकार्बोक्सिसलेशन	अपचयन
(4)	डीकार्बोक्सिसलेशन	अपचयन	पुनरुदभवन

- Q.77** नीचे दिये जा रहे आरेख में रँधी तंत्र दर्शाया गया है। निम्नलिखित चार विकल्पों में से किस एक में सभी चारे अँकित भाग A, B, C तथा D सही बताए गए हैं—



	A	B	C	D
(1)	द्वारा कोशिका	रँध्र छिद्र	सहायक कोशिका	बाह्य त्वचीय कोशिका
(2)	बाह्यत्वचीय कोशिका	द्वार कोशिका	रँध्र छिद्र	सहायक कोशिका
(3)	बाह्यत्वचीय कोशिका	सहायक कोशिका	रँध्र छिद्र	द्वार कोशिका
(4)	सहायक कोशिका	बाह्यत्वचीय कोशिका	द्वार कोशिका	रँध्र छिद्र

- Q.78** निम्नलिखित चार कथनों A, B, C तथा D को पढ़िये तथा वह एक विकल्प चुनिए जिसमें दोनों कथन सही दिए गए हैं—

कथन

- (A) प्रकाश प्रक्रिया की Z स्कीम केवल PSI की उपस्थिति में ही होती है

(B) चक्रीय फोटोफोरिलेशन में केवल PSI ही क्रियाशील होता है

(C) चक्रीय फोटोफोरिलेशन के फलस्वरूप ATP तथा  $\text{NADPH}_2$  का निर्माण होता है

(D) स्ट्रोमा लैमीली में PSII तथा NADP दोनों ही नहीं होते ।

## विकल्प



- Q.79** चाय बागानों में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला एक पादप वद्धिकर हार्मोन कौनसा है -


- (1) ऐबसिसिक अम्ल (2) जियेटिन  
(3) इन्डोल-3-एसिटिक अम्ल (4) ईथाइलीन

**Q.80** मूल परिवर्धन किसके द्वारा बढ़ाया जाता है -

- (1) ऑक्सिन  
(2) जिवैरेलिन  
(3) ईथाइलीन  
(4) ऐबसिसिक अम्ल

**Q.81** नीचे दिये कए चित्रों (A-D) की जाँच और दिये गये


1-4 विकल्पों से वह एक विकल्प चुनिए जिसमें सभी चारों संरचनाएँ A, B, C तथा D सही हैं -



विकल्प


	A	B	C	D
(1)	उपभूतारी	स्त्रीधानीधर	सहकोशिका	पुंछानी
(2)	भूत्तारिका	पुँछानीधर	एन्टीपोडल्स	अंडधानी
(3)	अंतःभूत्तारी	सीटा	बहत्‌बीजाणु मात	जैया कप
(4)	प्रकँद	बिजाणुधानीधर	ध्रुव कोशिका	ग्लोब्यूल

**Q.82** निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रतिदर्श वन पारितंत्र का संख्याओं का पिरैमिड दर्शाता है -



- (1) A  
(2) B  
(3) C  
(4) D

**Q.83** नीचे दर्शाए गए चक्र का अध्ययन कीजिए और उस एक विकल्प को चुनिए जिसमें A, B, C तथा D ये चारों रिक्त स्थानों के लिये सही शब्द दिये गये हैं-



विकल्प :

	A	B	C	D
(1)	विनाइट्रीकरण	अमोनीकरण	पौधे	जन्तु
(2)	नाइट्रोकरण	विनाइट्रीकरण	जन्तु	पौधे
(3)	विनाइट्रीकरण	नाइट्रोकरण	पौधे	जन्तु
(4)	नाइट्रोकरण	अमोनीकरण	जन्तु	पौधे

**Q.84** निम्नलिखित में कौन सा एसा मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ चपटी, हरी, माँसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है -

- (1) कैजूएराईना  
(2) हाइड्रिला  
(3) एकेशिया  
(4) ओपन्शिया

**Q.85** एन्डोमाइकोराहजा का एक उदाहरण है -


- (1) ग्लोमस  
(2) एगोरिक्स  
(3) राइजोबियम  
(4) नॉर्स्टाक

**Q.86** 'फलीदार पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो इस नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ठीक नहीं है -

- (1) ग्रैथिकाएँ नाइट्रोजन यौगिकीकरण के स्थलों का कार्य करती हैं।  
(2) नाइट्रोजिनेज़ एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है  
(3) नाइट्रोजिनेज़ पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं होता  
(4) लैगहिमोग्लोबिन गुलाबी रंग का होता है तथा ऑक्सीजन का अपमार्जन करता है

- Q.87** गेहूं का काला किड्डुरोग किसके द्वारा होता है -  
 (1) अस्टिलेगो न्यूड्ज  
 (2) पक्सीनिया ग्रैमिनिस  
 (3) जैन्थोमोनास ओराइजी  
 (4) आल्टरनेरिया सोलेनाई
- Q.88** निम्नलिखित में से किसका जीन क्लोनिंग में उपयोग किया जाता है -  
 (1) लोमासोम्स (2) मीजोसोम्स  
 (3) प्लाज्मिड्स (4) न्यूक्लिओड्स
- Q.89** निम्नलिखित में से कौनसा एक है जिसे प्लेग के प्रति वैक्सीन बनाने में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है-  
 (1) अनुग्र जीवित जीवाणु  
 (2) सॉशिलष्ट कैपसुलर पोलीसैकेराइड पदार्थ  
 (3) ऊषा द्वारा मत किये गये उग्र जीवाणुओं का निलँबन  
 (4) इनमें एक ठोस एकलसूत्री केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है
- Q.90** निम्नलिखित में से किस एक का जैव-प्रौद्योगिकी विधि द्वारा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है -  
 (1) मोर्फान (2) कुनैन  
 (3) इन्सुलिन (4) निकोटिन
- Q.91** मगरमच्छ और पेंगुइन निम्नलिखित में से किस एक बात में हेल तथा डॉगफिश के समान होते हैं?  
 (1) ये अण्डे देते एवं उनमें से बच्चे निकलने तक उनकी सुरक्षा करते हैं  
 (2) इनमें अस्थि कंकाल होता है  
 (3) इनमें किसी न किसी अवस्था पर क्लोम छिद्र होते हैं  
 (4) इनमें एक ठोस एकलसूत्री केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है
- Q.92** कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों (a-d) का सही समुच्चयवाला उत्तर चुनिये-  
 (a) मेथैनजन दलदली क्षेत्रों में मेथैन पैदा करने वाले आर्किबैक्टीरिया होते हैं  
 (b) नॉस्टर्क एक तंतुकी नील-हरित शैवाल होता है जो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है  
 (c) रस संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं  
 (d) माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती और वे बिना ऑक्सीजन के जीवित बने रह सकते हैं।  
 सही कथन हैं -  
 (1) (a), (b) (c) (2) (b), (c), (d)  
 (3) (a), (b) (d) (4) (b), (c)

- Q.93** नीचे दिये गये आरेख में जो घटक A, B, C तथा D नामांकित किये गये हैं वे साथ में दी गयी सूची (i) से (viii) में से क्या-क्या हैं, उनका सही संयोजन चुनिये-

**घटक :**


- (i) माइटोकार्पिड्या के क्रिस्टे
- (ii) माइटोकॉर्पिड्या की भीतरी झिल्ली
- (iii) कोशिकाद्रव्य
- (iv) चिकनी एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम
- (v) रक्ष एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम
- (vi) माइटोकार्पिड्यल मैट्रिक्स
- (vii) कोशिका रिक्तिका
- (viii) केंद्रक

घटकों का सही संयोजन है:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
(1)	(i)	(iv)	(viii)	(vi)
(2)	(vi)	(v)	(iv)	(vii)
(3)	(v)	(i)	(iii)	(ii)
(4)	(v)	(iv)	(viii)	(iii)

- Q.94** एंजाइमों से संबंधित नीचे दिये जा रहे कथनों में से तीन कथन सही हैं और एक गलत। बताइए गलत कथन कौन सा है ?
- (1) उच्च तापमानों पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं परंतु कुछ अपवाद जीवधारियों में ये  $80^\circ - 90^\circ\text{C}$  के तापमान पर भी प्रभावकारी बने रहते हैं।
  - (2) एंजाइम अति अनुविशिष्ट होते हैं
  - (3) अधिकतम एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं परंतु कुछ लिपिड्स होते हैं
  - (4) एंजाइमों को सर्वोत्तम क्रिया कर सकने के लिए अनुकूलतम pH चाहिए

- Q.95** नीचे दिये जा रहे एक विशिष्ट परिवार के वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए उस पर लागू हाने वाला सही निष्कर्ष को चुनिये-



- (1) इन माता-पिता के इस लक्षण के लिए सामान्य पुत्री पैदा नहीं हो सकती थी
- (2) अध्ययन किया जा रहा विशेषक वर्णान्वयन नहीं हो सकती
- (3) नर जनक समयुगमी प्रभावी है ।
- (4) मादा जनक विषमयुगमी है

- Q.96** होमो सेपिन्स के क्रम-विकासीय इतिहास के दौरान सर्वाधिक प्रकटशील परिवर्तन क्या था

- (1) सीधा खड़ा होकर चलना
- (2) जबड़ों का छोटा होना
- (3) मरिस्टिक के आमाप में अपूर्व वद्धि
- (4) देह रोमों की हानि

- Q.97** नीचे दिये गये चार कथनों (A-D) में से, प्रत्येक में एक या दो रिक्त स्थान हैं। आपको उस एक विकल्प को चुनना है जिसमें चार में से दो कथनों के रिक्त स्थानों को सही भरा गया है।-

**Statements :**

- (A) तितली के पंख और पक्षियों के पंख एक जैसे से दिखायी पड़ते हैं और ये <sup>(i)</sup> विकास का परिणाम है
- (B) मिलर ने प्रदर्शित किया था कि  $\text{CH}_4$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{NH}_3$  तथा <sup>(i)</sup>, को जब एक फ्लास्क के भीतर विद्युत विसर्जन से उद्भासित किया गया तो उससे <sup>(ii)</sup> का बनना पाया गया।
- (C) कृमिरूप परिशेषिक (ऐपेंडिक्स) एक <sup>(i)</sup> अंग है और यह विकास का <sup>(ii)</sup> प्रमाण है।
- (D) डार्विन के अनुसार, विकास होने के पिछे दो बातों का हाथ था <sup>(i)</sup> तथा योग्यम की <sup>(ii)</sup>

**विकल्प:**

- (1) (A) - (i) अभिसारी,
- (B) - (ii) ऑक्सीजन, (ii) न्यूक्लियोसाइड
- (2) (B) - (i) जलवाष्प, (ii) एमीनो अम्ल
- (C) - (i) अल्पवर्धित (ii) शारीरीय
- (3) (C) - (i) अवशेषी, (ii) शारीरीय,
- (D) - (i) उत्परिवर्तन, (ii) प्रगुणन
- (4) (D) - (i) छोटी विभिन्नताएँ, (ii) उत्तरजीविता,
- (A) - (i) अभिसारी

- Q.98** किसी इंजेक्शन लगायी जा सकने वाली सामग्री / औषधि को कहां पर लगाया जा सकता है ताकि बिना किसी प्रकार के खतरे के शरीर के भीतर उसका तीव्रतम वितरण हो सके -

- (1) धमनियां
- (2) शिराएं
- (3) लसीका वाहिकाएं
- (4) पेशियां

- Q.99** निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में एक संरचना, उसके पाये जाने का स्थान तथा उसके कार्य को सही मिलाया गया है-

	A	B	C
(1)	अनुमस्तिष्ठक	मध्य मस्तिष्ठक	वसन तथा आमाशयी स्त्रावों का नियंत्रण
(2)	हाइपोथैलमस	अग्र मस्तिष्ठक	शरीर के तापमान तथा खाने-पीने की उत्तेजना का नियंत्रण
(3)	अंध बिन्दु	उस स्थान के समीप जहाँ दस्टि तंत्रिका आंख से बाहर आती है	शलकाएं एवं शंकु होते हैं परन्तु यहाँ पर निश्चिय हैं
(4)	यूस्टेशियन नलिका	भीतरी कान का अग्र भाग	कर्णपटह झिल्ली के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाये रखना

- Q.100** ABO रक्त समूहन का नियंत्रण जीन I के द्वारा होता है जिसके तीन एलील (युग्मविकल्प) होते हैं एवं उनमें सह-प्रभाविता भी होती है। इनके छः जीन प्ररूप होते हैं। बताइए कुल लक्षणप्ररूप कितने हो सकते हैं -

- (1) तीन
- (2) चार
- (3) पाँच
- (4) छः

- Q.101** निम्नलिखित में से कौनसा एक वर्णन है जो सामान्य मानव कंकाल के एक विशेष भाग का सही वर्णन कर रहा है -

- (1) प्रथम कशरूक एक ऐसा ऐक्सिस है जो अनुकपाल अस्थिकंद से संधि बनाता है
- (2) नौर्वीं तथा दसर्वीं जोड़ी की पसलियां मुक्त पसलियां कहलाती हैं
- (3) ग्लीनॉइड कैविटी एक गर्त है जिसमें जंघारिथ आकर जुड़ती है
- (4) कपाल की पेराइटल हड्डी तथा टेम्पोरल हड्डी एक तंतुकी संधि द्वारा जुड़ी होती है

**Q.102** निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही गिनाया है?

- (1) केंचुआ - ग्रसनीय, अध्यावरणी तथा पटीय नेफ्रीडिया
- (2) कॉकरोच - मेलपिधी नलिकाएं तथा आंत्र अंधनाल
- (3) मेंढक - वक्क, त्वचा तथा मुख एपिथिलियम
- (4) मानव - वक्क सिबेशस ग्रथियां तथा अशु ग्रंथियां

**Q.103** एक हार्मोन, उसके स्त्रोत तथा कार्य को निम्नलिखित में से किस एक में सही मिलाया गया है-

	हार्मोन	स्त्रोत	कार्य
(1)	नोरएपिनेफ्रीन	एक्सीनल मेडुला	हृदय स्पंदन, श्वसन दर तथा सतर्कता को बढ़ाना
(2)	ग्लूकॉग्न	लैंगरहैंस द्विपिकाओं की बीटा कोशिकाएं	ग्लाइकोजनलयन को उत्तेजित करना
(3)	प्रोलेक्टिन	पश्च पिट्युटरी	मादाओं में स्तनग्रथियों की वृद्धि तथा दूध निर्माण का नियमन
(4)	वैसोप्रेसिन	पश्च पिट्युटरी	मूत्र द्वारा जल की हानि को बढ़ाता है

**Q.104** नीचे चार कथन (a-d) दिये जा रहे हैं, जिनका सम्बन्ध मानव रूधिर परिसंचरण तंत्र से है-

- (a) शिराओं की तुलना में धमनियां अधिक मोटी दीवार वाली होती हैं एवं उनकी अवकाशिका संकीर्ण होती है
- (b) एंजाइना, छाती की तीव्र पीड़ा होती है जो मस्तिष्क में पूरा रक्त न पहुंच पाने के कारण होती है
- (c) AB रक्त समूह वाले व्यक्ति ABO तंत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को रक्तदान दे सकते हैं
- (d) रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में कैल्सियम आयनों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऊपर दिए गये कथनों में से कौन से दो कथन सही हैं?

- (1) (a) व (b)
- (2) (b) व (c)
- (3) (c) व (d)
- (4) (a) व (d)

**Q.105** किसी एक विशिष्ट सत्त्व के विषय में दिया जा रहा कथन निम्नलिखित में से कौन सा सही है -

- (1) वह जीन जिसका सम्बन्ध इंसुलिन के उत्पादन से है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है
- (2) न्यूक्रियोसोम की रचना न्यूक्रियोडाइडों से हुई होती है
- (3) DNA आठ हिस्टोनों के कोड का बना होता है
- (4) सेंट्रोमीयर प्राणी-कोशिकाओं के भीतर होता है, जो कोशिका-विभाजन के दौरान एस्टर (तारक) बनाता है

**Q.106** संरचनाओं के किस एक जोड़े को, उनके सही विवरण से ठीक मिलाया गया है-

	संरचनाएं	विवरण
(1)	कार्टिलेज तथा कॉर्निया	रक्त सप्लाई नहीं परन्तु श्वसन आवश्यकता के लिए उन्हे ऑक्सीजन अवश्य चाहिए
(2)	कंधा संधि तथा कोहनी संधि	कंदुक खल्लिका प्रकार की संधि
(3)	अग्रचर्वणक तथा चर्वणक	कुल संख्या 20 तथा 3-जड़ वाले
(4)	टिबिया तथा फिबुला	दोनों ही घुटना संधि के अंश

**Q.107** यदि किसी कारणवश आहार-नाल के एपिथीलियम की पैराइटल कोशिकाएं अंशतः कार्यविहीन हो जाए तो क्या हो सकने की संभावना होगी -

- (1) अमाशय का pH एक दम नीचे गिर जाएगा
- (2) स्टीएप्सिन अधिक कार्यक्षम हो जाएगा
- (3) प्रोटीनों का पेसिन द्वारा प्रोटिओज़ों तथा पेटोनों में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पायेगा
- (4) अग्नाशयी एंजाइम और उनमें भी विशेषतः ट्रिप्सिन तथा लाइपेज़ ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे

**Q.108** मानव मादा में ब्लास्टोसिस्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सही है -

- (1) यह अण्डोत्सर्ग 3 दिन बाद गर्भाशय में अंतरोपित हो जाता है
- (2) केवल अंतरोपित हो जाने के बाद ही यह एंडोमेट्रियल स्त्रवण से पोषण प्राप्त करता है
- (3) यह एंडोमेट्रियम में ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा अंतरोपित होता है
- (4) इससे अपरा (प्लैसेंटा) का बनना अन्तरोपण होने से पहले ही हो जाता है

- Q.109** निम्नलिखित में से किस एक के स्त्रावों में प्रुकटोज कैल्सियम तथा कुछ एंजाइमों की भरपूर मात्रा पायी जाती है-
- यकृत (लिवर)
  - अग्नयाशय (पैंक्रियाज)
  - लार ग्रथियां
  - नर सहायक ग्रंथियां
- Q.110** जब घरेलू सीवेज (मतजल) नदी के पानी से जा मिलता है तब क्या होता है -
- बढ़ गयी सूक्ष्मजीवीय सक्रियता से सूक्ष्मपोषकों का जैसे कि आयरन (लौह) का विमोचन होता है
  - बढ़ गयी सूक्ष्मजीवीय सक्रियता से घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है
  - नदी का जल तब भी पीने के लिए उपयुक्त बना रहता है क्योंकि अशुद्धताएं मात्र 0.1% के लगभग ही होती है
  - चूहे जैसे छोटे प्राणी नदी के जल को पीकर मर जाएंगे
- Q.111** निम्नलिखित में से किस एक को सर्वाधिक उचित रूप में परिभाषित किया गया है -
- एम्सेलिज्म (अभोजिता) वह संबंध है जिसमें एक स्पीशीज को लाभ पहुंचता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है
  - परभक्षी वह जीव होता है जो किसी अन्य जीव को अपने भोजन के लिए पकड़ता और मार डालता है
  - परजीवी वह जीव होता है जो सदैव अन्य जीवधारी के शरीर के भीतर रहता है और उसकी मत्यु का कारण बन जाया करता है
  - परपोषी वह जीवधारी होता है जो अन्य जीव को पोषण प्रदान करता है
- Q.112** पीलिया ("जॉडिस") रोग किसमें आये दोष के कारण पैदा होता है -
- त्वचा तथा आँखें
  - पाचन तंत्र
  - परिसंचरण तंत्र
  - उत्सर्जन तंत्र
- Q.113** एक व्यक्ति जो प्लाज्मोडियम से पैदा हुए एक रोग से पीड़ित है एक खास समय पर जाड़ा लगना और बुखार आना महसूस करता है। यह खास समय कब होता है-
- जब ट्रोफोजूआइट्स (पोषण) अपनी अधिकतम वद्धि प्राप्त कर लेते एवं कुछ खास टॉक्सिनों को बाहर छोड़ते हैं
  - जब परीजीवी RBCs के भीतर अपना तीव्र प्रगुणन करके उन्हे फोड़ देते और उस अवस्था को बाहर छोड़ते हैं जो नये RBCs में प्रवेश करेंगी
  - जब सूक्ष्मयुग्मकजनक और बहतयुग्मकजनक WBCs द्वारा नष्ट किये जा रहे होते हैं
  - जब RBCs से विमोचित बीजाणुज स्लीहा (स्लीन) के भीतर तेजी से मारे और विखंडित किये जा रहे होते हैं
- Q.114** कौनसों की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है -
- रेडियोग्राफी (X-ray)
  - कम्प्यूटेड टोमोग्राफी (CT)
  - हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन
  - मैग्नेटिक रेज़ोनैस इमेजिंग (MRI)
- Q.115** पौलीन्यूक्लियोटाइड श्रंखला के भीतर 3'-5' फॉस्फोडाइएस्टर सहलग्नताएं किनको जोड़ने का काम करती हैं -
- एक न्यूक्रियोसाइड को एक अन्य न्यूक्रियोसाइड से
  - एक न्यूक्रियोटाइड को एक अन्य न्यूक्रियोटाइड से
  - एक नाइट्रोजनी बेस को पैटोज़ शर्करा से
  - एक DNA रज्जुक को दूसरे DNA रज्जुक से
- Q.116** आनुवांशिक इंजीनियरी में किसी पसंदीदा DNA खंड (जीन) को एक वेक्टर (वाहक) के द्वारा परपोषी कोशिका के भीतर स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रसंग में निम्नलिखित साधनों (A-D) पर विचार कीजिए और फिर आगे दिये जा रहे विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए कि इनमें से किस एक को या किन एक से अधिक को वाहक/वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है-
- एक बैकटीरियम
  - प्लाज्मिड
  - प्लाज्मोडियम
  - जीवाणुभोजी
- विकल्प :**
- केवल (A)
  - केवल (A) तथा (C)
  - केवल (B) तथा (D)
  - केवल (A), (B) तथा (D)

**Q.117** मार्गन और उसके सहकार्यिकों द्वारा रखे गये वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलैनोगेस्टर को बहुत उपयुक्त पाया गया । ऐसा इसलिए क्योंकि—

- (1) एक मैथुन से दो वयस्क मक्खीयां पैदा होती हैं
- (2) छोटे आकार की मादाएं बड़ नरों से आसानी से पथक पहचानी जा सकती हैं
- (3) इसका जीवन चक्र लगभग दो सप्ताह में पूरा हो जाता है
- (4) यह अनिषेकजनन विधि से जनन करती है

**Q.118** पूर्णविकसित गर्भ तथा अपरा से निकले संकेतों से अंततः प्रसव हो जाता है, जिसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है—

- (1) आक्सीटोसिन की माता के पिट्यूटरी (पीयूष) से
- (2) ऑक्सीटोसिन की, गर्भ के पिट्यूटरी (पीयूष) से
- (3) अपरा से निकले रिलैक्सिन की
- (4) अपरा से निकले एस्ट्रोजन की

**Q.119** भारतीय गैंडा प्राकृतिक रूप में किस भारतीय राज्य का निवासी है—

- (1) उत्तर प्रदेश
- (2) हिमाचल प्रदेश
- (3) आसाम
- (4) उत्तराखण्ड

**Q.120** एक सामान्य स्वरथ मानव व्यस्क के प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है—

- (1) 25-30 g
- (2) 17-20g
- (3) 12-16 g
- (4) 5-11 g

**ANSWER KEY (MAINS-2010)**

<b>Ques.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Ans.</b>	3	4	3	3	4	3	1	4	1	3	1	2	1	3	2	3	4	4	2	3
<b>Ques.</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>Ans.</b>	2	4	2	2	1	3	4	2	2	3	2	2	3	3	1	2	1	4	1	3
<b>Ques.</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
<b>Ans.</b>	4	4	1	2	2	4	3	3	1	4	2	2	1	3	2	3	2	4	3	2
<b>Ques.</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
<b>Ans.</b>	2	2	1	1	3	2	1	2	3	2	1	1	2	2	3	2	3	4	3	1
<b>Ques.</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>Ans.</b>	2	2	1	4	1	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	2	2	2
<b>Ques.</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	<b>120</b>
<b>Ans.</b>	4	1	1	4	1	1	3	3	4	2	2	2	2	4	2	3	3	1	3	3